



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939

No. 44]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 61(अ).—जहां कि, “टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई)” (एशियन पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत आता है, और चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य (एशियन पश्चात् जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हो, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या **14/36/2016-डीजीएडी**, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017, जिसे 13 दिसम्बर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (i) कि विचाराधीन उत्पाद का विषयगत देश से भारत में आयात सामान्य से कम कीमत पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
- (ii) विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद की यहां भरमार होने के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंची है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले बहुतायत आयात के कारण हुई है, और, उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित ऐसी विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 2015 के नियम 18 और 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, ऐसे विषयगत वस्तु, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट विषयगत देशों से जो मूलतः उत्पादित हैं, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित हैं कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, पर कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन वाला देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	29291020	टोल्यान डाई-आइसोसाइनेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.26	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	29291020	टोल्यान डाई-आइसोसाइनेट	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोई भी	कोई भी	0.26	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	29291020	टोल्यान डाई-आइसोसाइनेट	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.26	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
4.	29291020	टोल्यान डाई-आइसोसाइनेट	जापान	जापान	कोई भी	कोई भी	0.15	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
5.	29291020	टोल्यान डाई-आइसोसाइनेट	जापान	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोई भी	कोई भी	0.15	किलोग्राम	
6.	29291020	टोल्यान डाई-आइसोसाइनेट	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	जापान	कोई भी	कोई भी	0.15	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

7.	29291020	टोल्यून डाई- आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हानवा कैमिकल्स कॉर्पोरेशन	क) पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ख) एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड ग) आईएमएस कॉर्पोरेशन	0.22	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
8.	29291020	टोल्यून डाई- आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	बीएसएसएफ कंपनी	बीएसएसएफ कंपनी	0.31	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
9.	29291020	टोल्यून डाई- आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उपयुक्त क्रम संख्या 7 और 8 में उल्लिखित कंवीनेशन से भिन्न		0.44	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
10.	29291020	टोल्यून डाई- आइसोसाइनेट	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.44	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
11.	29291020	टोल्यून डाई- आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोई भी	कोई भी	0.44	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि (इसके पहले यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है), तक लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना में प्रयुक्त विनिमय दर वही दर होगी जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की जारी अधिसूचना में दी गई हो और विनिमय दर के निर्धारण की तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/82/2017 –टीआरयू (पार्ट-I)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

No. 3/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 61(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Toluene Di-Isocyanate (TDI)’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff item 2929 10 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 14/36/2016-DGAD, dated the 13th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th December, 2017, has come to the conclusion that—

- (a) the product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value, resulting in dumping;
- (b) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries;
- (c) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and, has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table:

TABLE

S No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	29291020	Toluene di-isocyanate	China PR	China PR	Any	Any	0.26	Kg.	US\$
2.	29291020	Toluene di-isocyanate	China PR	Any country other than those subject to anti-dumping Duty	Any	Any	0.26	Kg.	US\$
3.	29291020	Toluene di-isocyanate	Any country other than those subject to anti-dumping Duty	China PR	Any	Any	0.26	Kg.	US\$
4.	29291020	Toluene di-isocyanate	Japan	Japan	Any	Any	0.15	Kg.	US\$
5.	29291020	Toluene di-isocyanate	Japan	Any country other than those subject to anti-dumping Duty	Any	Any	0.15	Kg.	
6.	29291020	Toluene di-isocyanate	Any country other than those subject to anti-dumping Duty	Japan	Any	Any	0.15	Kg.	US\$

7.	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP.	Korea RP.	Hanwha Chemical Corporation	a) PP and Y International Co. Ltd. b) Everlite Korea Co., Ltd. c) IMS Corporation	0.22	Kg.	US\$
8.	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP.	Korea RP.	BASF Company Ltd.	BASF Company Ltd.	0.31	Kg.	US\$
9.	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP.	Korea RP.	Any combination other than mentioned in Sl. No.7 & 8 above		0.44	Kg.	US\$
10.	29291020	Toluene di-isocyanate	Any country other than those subject to anti-dumping Duty	Korea RP.	Any	Any	0.44	Kg.	US\$
11.	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP.	Any country other than those subject to anti-dumping Duty	Any	Any	0.44	Kg.	US\$

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/82/2017 –TRU (Pt-I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.